



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1030 राँची, शुक्रवार,

6 दिसम्बर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

19 नवम्बर, 2019

संख्या-1 (निदे. अभि.) आरोप- 25/2019-4532/नि.रा.,-- बंदोबस्त कार्यालय, पलामू के पत्रांक- 546, दिनांक-11.10.19 द्वारा श्री त्रिपुरारी प्रसाद, मोहर्रिर, बंदोबस्त कार्यालय, पलामू को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डाल्टनगंज द्वारा पैसे लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के धावा दल द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक-11.10.19 को 11:15 बजे पूर्वाह्न में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (2) (क) के तहत श्री त्रिपुरारी प्रसाद को हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक- 11.10.19 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री त्रिपुरारी प्रसाद का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री त्रिपुरारी प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी।

ह०/-

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
